

अमृत फाउंडेशन ऑफ इंडिया

अमृत फाउंडेशन ऑफ इंडिया

बौद्धिक और विकास सम्बन्धी
डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों की
देखभाल



www.amritfoundationofindia.in
team@amritindia.in • 011 26520998

डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र

यह आपके बच्चे की डिसेबिलिटी का प्रमाण है जो आपको ज़रूरी सेवाओं और संस्थाओं तक पहुँचने में मदद करेगा।

केवल 21% लोग, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, के पास प्रमाण पत्र है। क्या आपके पास है?

जी बी पंत अस्पताल

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)

दीं डायल उपाध्याय अस्पताल

गुरु तेग बहादुर अस्पताल



वी एम एम सी & सफदरजंग अस्पताल

जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

पास का अधिकृत अस्पताल हूँ

राम मनोहर लोहिआ अस्पताल

लोक नायक अस्पताल

इंस्टिट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज

अपने बच्चे के लिए डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?



सामाजिक कार्यकर्ता या पुनर्वास विभाग से प्रक्रिया की पुष्टि के लिए संपर्क करें

मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट की प्रति



निवास प्रमाण

बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो

मेडिकल रिपोर्ट की प्रति

सभी ज़रूरी कागज़ात साथ रखें

आपके कानूनी हक़

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 हर 6-14 साल के बच्चे को उनकी क्षमता की परवाह किये बिना शिक्षा का अधिकार देता है



आयकर अधिनियम की धारा 80 डीडी उन लोगों के लिए टैक्स में कटौती देता है जिनपर कोई विकलांगता के कारण आश्रित है। धारा 80 डीडीबी चिकित्सा उपचार पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त कटौती का प्रावधान देता है।



सेवाएं जो आपके या आपके बच्चे की ज़रूरत हों

स्पीच थेरेपी, भाषण और भाषा की समस्याओं का सामना करने वाले लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से बात करने में मदद करता है।



ऑक्युपेशनल थेरेपी दैनिक जीवन को बनाए रखने में ज़रूरी कौशल को विकसित करने और बनाये रखने में मदद करता है। यह लंबी अवधि की थेरेपी है और कपड़े पहनने, खाना खाने, खेलने आदि पर केंद्रित है।

मनोवैज्ञानिक और **मनोचिकित्सक** मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके उपचार के लिए बातचीत का सहयोग लेते हैं। मनोचिकित्सक चिकित्सा में पेशेवर हैं और दवा दे सकते हैं।



विशेष शिक्षक बौद्धिक चुनौतियों से प्रभावित बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं में मदद करते हैं। वे विशेष और मुख्यधारा से जुड़े स्कूलों में काम करते हैं।

फिजिकल थेरेपी या **फिजियोथेरेपी** गतिशीलता, शारीरिक गतिविधि और समग्र स्वास्थ्य और भलाई पर केंद्रित है।



काउंसिलिंग, डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों को एक गोपनीय जगह में अपनी समस्याओं और भावनाओं के बारे में बात करने में मदद देती है।

वोकेशनल थेरेपी, कौशल विकसित करने और उचित नौकरियों की पहचान करके उत्पादक रोजगार हासिल करने में मदद करती है।



एक **कानूनी अभिभावक** वह व्यक्ति है जिसे अदालत ने किसी अन्य व्यक्ति को देखभाल की जिम्मेदारी दी होती है। कानूनी अभिभावक रखने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपके न रहने पर बच्चे की देखभाल के लिए कोई रहेगा।

वित्तीय ट्रस्ट एक कानूनी व्यवस्था है जिससे आप बच्चे की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए कुछ पैसे छोड़ते हैं जो दो या अधिक ट्रस्टीज की देखभाल में होता है। ट्रस्ट अपनी वसीयत में या अपने जीवनकाल के दौरान स्थापित की जा सकती है।



प्रमुख संपर्क

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), डिसेबिलिटी से प्रभावित लोगों के लिए योजनाएं चलाता है जिसमें छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता और कौशल विकास के पाठ्यक्रम शामिल हैं।

011- 2436 9056
jsda-msje@nic.in

नेशनल ट्रस्ट, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और बहु विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करता है। यह प्रशिक्षण, आश्रय और देखभाल प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाता है।

011-43187878
contactus@thenationaltrust.in

डिसेबिलिटी लाइन एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जो निदान, उपचार काउंसलिंग, शिक्षा, रोजगार के ऊपर जानकारी प्रदान करती है।

0120-2200920/921/923

जॉब एबिलिटी एक ऑनलाइन पोर्टल है जो डिसेबिलिटी से प्रभावित लोगों के लिए नौकरी और नियुक्तियों से जोड़ता है।

080-22861902/6113 www.jobability.org

अमृत फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया सभी भारतीयों की भलाई और विकास पर केंद्रित काम करता है ताकि वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सकें। हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम, द लिटिल पीपुल ट्री, बौद्धिक और विकास सम्बन्धी डिसेबिलिटी से प्रभावित लोगों के हाशिये तक पहुँचने के अनुभव पर केंद्रित है।

लिटिल पीपुल ट्री सेवा बैंक एक ही जगह पर आटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देता है। यह सेवा प्रदाता की डायरेक्टरी भी देता है।

011-26520998
team@amritindia.in
www.amritfoundationofindia.in



बलगत विप्लवगत व निवृत्त